

**जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश**  
**प्रेस नोट-102 , दिनांक 08.10.2019**

आज दिनांक 08.10.2019 को प्रभारी सर्विलांस /स्वाट टीम व थाना माधौगढ़ पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 50,000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –**

1 - जितेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र सिंह परिहार उर्फ जितेन्द्र शर्मा पुत्र प्रताप सिंह उर्फ बबलू परिहार निवासी ग्राम जगम्मनपुर थाना रामपुरा, जनपद जालौन हाल निवास - मु0 बघौरा उरई, थाना कोतवाली उरई, जनपद जालौन

**बरामदगी का विवरण –**

- 1 – 01 अदद तमंचा 315 बोर।
- 2 - 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
- 3 – 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 4 – 01 अदद ओप्पो मोबाइल गोल्डेन कलर।
- 5 - 01 अदद पर्स जिसमें 1520 रुपये।
- 6 – 01 अदद पीले धातू की एक चैन।
- 7 - 01 अदद पिठू बैग जिसमें एक खाकी पैन्ट एक सफेद पैन्ट व एक काली सर्ट एवं एक काली टोपी।
- 8 - 01 अदद मोटरसाइकिल अपाचे रंग नीला न0 युपी-92 वी-7053।

**गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक –**

अभियुक्त को जनपद जालौन के थाना क्षेत्र माधौगढ़ के से झरैला मोड़ से करीब 500 मीटर आगे महाराजपुरा की ओर सड़क से आज दिनांक 08.10.2019 को समय करीब 3.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 03.08.2019 को वादी कमल सिंह पुत्र शारदा प्रसाद निवासी 337 मुहल्ला बघौरा के0 एस0 स्कूल उरई के पास थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 889/19 धारा 356 भादवि वनाम अज्ञात द्वारा अपनी माँ की चैन छीने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना में धारा 356 भादवि का लोप कर धारा 392 भादवि की बढोत्तरी की गयी एवं अभियोग में वांछित 04 अभियुक्तों की गिरफ्तारी दिनांक 06.10.2019 को की जा चुकी है तथा अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र सिंह परिहार उक्त अभियोग में घटना के दिन से लगातार फरार चल रहा था एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार स्थान बदल रहा था किन्तु काफी प्रयास के बावजूद अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी न ही न्यायालय में हाजिर हुआ जिसकी गिरफ्तारी हेतु उक्त अभियुक्त पर श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र ,झांसी द्वारा 50,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

उक्त अभियुक्त शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ0 सतीश कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये सघन अभियान के क्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 अवधेश सिंह के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी माधौगढ़ श्री राहुल पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना माधौगढ़ एवं स्वाट /सर्विलांस टीम गठित कर लगाया गया था।

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली माधौगढ़ एवं स्वाट /सर्विलांस टीम मय हमराह फोर्स थाना माधौगढ़ क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे ,वाहन चोर, चैन सैचरों / वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान उक्त अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने लगा जब पुलिस पार्टी ने संदिग्ध अभियुक्त से रुकने को कहा तो वह पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा जबाबी कार्यवाही में संदिग्ध अभियुक्त को भीमनगर से झरैला जाने वाले मार्ग से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया जब अभियुक्त से नाम पता पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त का नाम जितेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र सिंह उर्फ जितेन्द्र शर्मा है जो 50,000/- रू0 का ईनामी है मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त एवं आरक्षी अजय प्रताप को चोटें आयी हैं इस सम्बन्ध में थाना माधौगढ़ पर मु0अ0सं0 190/19 धारा 307 भादवि एवं मु0अ0सं0 191/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र सिंह उर्फ जितेन्द्र शर्मा परिहार का आपराधिक इतिहास –**

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	90/12	323/325/504/506 भादवि	रामपुरा	जालौन
2	478/13	380/411 भादवि	एट	जालौन
3	01/14	392/412 भादवि	अयाना	औरैया
4	64/14	3/25 आर्म्स एक्ट	अयाना	औरैया
5	127/14	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	अयाना	औरैया
6	2701/15	171/386/420 भादवि	कोत० उरई	जालौन
7	2702/15	3/25 आर्म्स एक्ट	कोत० उरई	जालौन
8	503/16	4/25 आर्म्स एक्ट	कोत० उरई	जालौन
9	258/17	419/420/454 IPC	माधौगढ़	जालौन
10	259/17	3/25 आर्म्स एक्ट	माधौगढ़	जालौन
11	145/18	419/420/170/386 भादवि	कोंच	जालौन
12	146/18	3/25 आर्म्स एक्ट	कोंच	जालौन
13	405/19	8/20 NDPS ACT	कोत० उरई	जालौन
14	406/19	307/419/420 IPC	कोत० उरई	जालौन
15	407/19	3/25 ARMS ACT	कोत० उरई	जालौन
16	889/19	356 भादवि	कोत० उरई	जालौन

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

- 1 - निरी० श्री शैलेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलास सेल जनपद जालौन
- 2 – प्र०नि० श्री जयप्रकाश पाल थाना माधौगढ़ जनपद जालौन
- 3 - उ०नि० श्री सुदीश कुमार प्रभारी स्वाट टीम जनपद जालौन
- 4 - 1036 गौरव वाजपेयी सर्विलांस सेल जनपद जालौन
- 5 - कां० 363 राजीव यादव स्वाट टीम जनपद जालौन
- 6 – का० 1353 रवि भदौरिया स्वाट टीम जनपद जालौन
- 7 – का० 02 रवि कुमार स्वाट टीम जनपद जालौन ।
- 8 - कां० 1034 शैलेन्द्र सिंह चौहान स्वाट टीम जनपद जालौन
- 9 - कां० 108 कर्मवीर सिंह स्वाट टीम जनपद जालौन
- 10 - कां० 1388 सतेन्द्र सिंह स्वाट टीम जनपद जालौन
- 11 - कां० 743 मनोज कुमार स्वाट टीम जनपद जालौन
- 12- कां०चा० विजेन्द्र सिंह स्वाट टीम जनपद जालौन
- 14 - का० ललित कुमार थाना माधौगढ़ जनपद जालौन
- 15 – का० चालक प्रदीप कुमार थाना माधौगढ़ जनपद जालौन
- 16 - का० 1497 अजय प्रताप थाना माधौगढ़ जनपद जालौन